



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 566]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सं. 115 (आर.ई. 2013)/2009-2014

विषय:—सैन्य सामान का निर्यात।

का.आ. 754(अ).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की तालिका-क में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की तालिका-क में क्रम सं. 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

तालिका क

आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के एक से अधिक अध्याय में आने वाले माल

क्रम सं.	अध्याय	मद विवरण	नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
4	कोई अध्याय	तालिका क की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी में यथा विनिर्दिष्ट सैन्य सामान	मुक्त	(i) रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध, रक्षा उत्पादन विभाग की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों के अनुसार रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। (ii) पोटलदान बिल में मद का विवरण तालिका क की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी में दर्शायी गई मद की क्रम सं. जैसे एमएस 001क या एमएस 001ख.....जैसा भी मामला हो, से पहले आएगा।

			(iii) पोतलदान बिल में रक्षा उत्पादन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख अवश्य दर्शायी जानी चाहिए।
--	--	--	--

3. तालिका क की मौजूदा निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

तालिका क की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी

सैन्य सामान की सूची

क्रम सं. 4 में "प्रतिबंध का स्वरूप" में उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नलिखित सैन्य सामान का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है:

- एमएस 001. बख्तरबंद या रक्षात्मक उपकरण, संरचना और संघटक, जो निम्नानुसार हैं:
- सैन्य मानक अथवा विनिर्देशन का पालन करने के लिए विनिर्मित धात्विक अथवा गैर-धात्विक कवचबंद प्लेट; अथवा सैन्य प्रयोग के लिए उपयुक्त।
 - धात्विक अथवा गैर-धात्विक सामग्रियों अथवा उनसे जुड़े सामान जो कि विशेष रूप से सैन्य प्रणालियों और उनके विशेष रूप से बनाए गए संघटकों के लिए बैलेस्टिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हों।
 - सैन्य मानकों अथवा विनिर्देशनों अथवा तुलनात्मक राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विनिर्मित हैलमेट्स, और उनके विशेष रूप से बनाए गए हिस्से (अर्थात् हैलमेट शैल, लाइनर और कम्फर्ट पैड्स)
 - कवच अथवा सुरक्षात्मक वस्त्र और उनके हिस्से नामतः सैन्य मानकों अथवा विनिर्देशनों के अनुसार विनिर्मित नरम कवच अथवा सुरक्षात्मक वस्त्र अथवा उनके समतुल्य और उनके विशेष रूप से बनाए गए संघटक।
 - कवच अथवा सुरक्षात्मक वस्त्र और उनके हिस्से नामतः स्तर III (एनआईजे 0101.06 जुलाई, 2008) अथवा राष्ट्रीय समतुल्यों के बराबर अथवा अधिक बैलेस्टिक सुरक्षा प्रदान करने वाली सख्त कवच प्लेट्स।
- एमएस 002. निम्नलिखित नरम-बोर शस्त्र, अन्य हथियार और ऑटोमेटिक अस्त्र, प्रोजेक्टर्स और अनुषंगी और उनके विशेष रूप से बनाए गए संघटक:—
- राइफल, गन्स और कंबीनेशन गन्स, हैंडगन्स, मशीन गन्स, सब-मशीन गन्स और बोली गन्स; हाउडटजर्स, तोप, मोर्टार्स, एंटी-टैंक अस्त्र, प्रोजेक्टाइल लांचर्स, सैन्य फ्लेम थ्रॉवर्स, राइफल, रिकॉयलैस राइफल, नरम-बोर शस्त्र और उनके सिगनेचर, रिडक्शन डिवाइसेस, डिटेचेबल कारतूस मैगजीन और माउन्टिंग्स, सैन्य अस्त्रों/सामान के लिए विशेष रूप से बनाए गए अस्त्र साइट्स और अस्त्र साइट्स माउंट्स।
 - केसलैस गोला-बारूद वाले हथियार।
 - सैन्य उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट वियोज्य कारतूस मैगजीन और माउन्टिंग्स, उपरोक्त 2क और 2ख द्वारा विनिर्दिष्ट हथियारों के लिए आवाज अवरोधक अथवा मंदक, विशेष गन माउन्टिंग्स, ऑप्टिकल शस्त्र साइट्स और फ्लैश अवरोधक।
 - सैन्य उपयोग के लिए विशिष्ट रूप से बनाए गए अथवा संशोधित किए गए स्मोक, गैस और पायरोटेक्निक प्रोजेक्टर्स अथवा जनरेटर्स।
- एमएस 003. बम, टॉर्पीडो, ग्रेनेड्स, स्मोक कनिस्तरर्स, खानें (गैर-कार्मिक खानों के अलावा), डेप्थ चार्जर्स, अन्य विस्फोटक उपकरण और चार्जर्स और संबंधित उपकरण और अनुषंगी और सैन्य उपयोग के लिए उनके विशेष रूप से बनाए गए संघटक।
- एमएस 004. गोला-बारूद और फ्यूज सैटिंग उपकरण और निम्नलिखित सहित उनके विशेष रूप से बनाए गए उपकरण:—
- प्राइमर एनविल्स गोली के कप्स, कारतूस लिंक, घूमने वाले बैंड्स और सैन्य सामान धात्विक हिस्से जैसे धात्विक अथवा फेब्रिकेशन्स।
 - सेफिंग और आर्मिंग उपकरण, फ्यूज, सेंसर और प्रवर्तन उपकरण।
- एमएस 005. निम्नलिखित अग्निशमन तथा संबंधित खतरे की सूचना तथा चेतावनी उपस्कर तथा संबंधित सिस्टम्स, परीक्षण तथा संरेखन तथा प्रत्युपाय उपस्कर, विशेष रूप से सैन्य उपयोग तथा तत्संबंधी विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुर्जे और अनुषंगी:
- हथियार साइट्स, बम विस्फोटक कम्प्यूटर, बंदूक बिछाने संबंधी उपस्कर तथा हथियार नियंत्रण सिस्टम्स।
 - लक्ष्य प्राप्ति, प्रयोजन, रेंज फाइंडिंग, चौकसी अथवा निगरानी सिस्टम्स, खोज, डाटा फ्यूजन, अभिज्ञान अथवा पहचान संबंधी उपस्कर और सेन्सर एकीकरण उपस्कर।
 - पैरा 5क अथवा 5ख में विनिर्दिष्ट खोजी उपस्कर सहित प्रत्युपाय उपस्कर।
 - पैरा 5क, 5ख अथवा 5ग में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मदों हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए फील्ड परीक्षण अथवा संरेखन उपस्कर।

- एमएस 006क. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और संशोधित युद्ध जहाज (सतही अथवा जल के भीतर), विशेष नौसेना उपस्कर, अनुषंगी, पुर्जे तथा अन्य सतही जहाज।
- एमएस 006ख. एमएस 006क में उल्लिखित सैन्य उपयोग हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए ईजन और प्रोपलशन सिस्टम तथा तत्संबंधी पुर्जे।
- एमएस 006ग. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जल के भीतर के खोजी उपकरण, नियंत्रण एवं तत्संबंधी पुर्जे, एन्टी सबमेरिन नेट्स तथा एन्टी टारपीडो नेट्स; पतवार प्रवेशक तथा कनेक्टर्स जिससे जहाज के बाह्य उपस्कर तथा तत्संबंधी पुर्जों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है।
- एमएस 006घ. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साइलेंट बीयरिंग, तत्संबंधी पुर्जे तथा उपस्कर।
- एमएस 007. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित सैन्य जमीनी वाहन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
- खान बिछाने अथवा आयुध प्रक्षेपण हेतु हथियारों और उपस्करों की माउंटिंग की फिटिंग वाले टैंक तथा अन्य सैन्य हथियार वाहन तथा सैन्य वाहन।
 - बख्तरबंद वाहन।
 - जलस्थलचर तथा डीप वाटर फोर्डिंग वाहन।
 - युद्ध सामग्री अथवा हथियार सिस्टम को ले जाने अथवा यातायात हेतु रिकवरी वाहन तथा संबद्ध सामान ढोने के उपस्कर।
 - खान संरक्षित वाहन।
- एमएस 008. उच्च वेग गतिज ऊर्जा हथियार सिस्टम तथा संबंधित उपस्कर तथा विशेष रूप से डिजाइन किए गए तत्संबंधी पुर्जे।
- एमएस 009. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इमेजिंग अथवा प्रत्युपाय उपस्कर तथा तत्संबंधी विनिर्दिष्ट पुर्जे और अनुषंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
- रिकार्डर एवं इमेज प्रोसेसिंग उपस्कर।
 - कैमरा, फोटोग्राफिक उपस्कर तथा फिल्म प्रोसेसिंग उपस्कर।
 - इमेज इन्टेंसिफायर उपस्कर।
 - इन्फ्रारेड अथवा थर्मल इमेजिंग उपस्कर।
 - इमेजिंग राडार सेन्सर उपस्कर।
 - उपर्युक्त विनिर्दिष्ट उपस्कर हेतु प्रत्युपाय अथवा प्रति-प्रत्युपाय उपस्कर।
- एमएस 010. सैन्य प्रशिक्षण अथवा सैन्य परिदृश्यों के नमूने तैयार करने हेतु विशिष्ट उपकरण, किसी बंदूक अथवा हथियार के प्रयोग में प्रशिक्षण हेतु विशेष रूप से तैयार नमूने और विशेष रूप से तैयार संघटक और उनके सहयंत्र।
- एमएस 011. विविध उपकरण, सामग्री और "पुस्तकालय" तथा निम्नलिखित सहित उनके लिए विशेष रूप से तैयार संघटक:
- सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार भवन-निर्माण उपकरण।
 - सैन्य प्रयोग हेतु सांकेतिक छिपाव के लिए विशेष रूप से तैयार फिटिंग, लेपन और प्रशोधन।
 - फील्ड इंजीनियर के लिए युद्ध क्षेत्र में प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार उपकरण।
 - सैन्य स्टोरो में अन्यत्र विनिर्दिष्ट उपकरण और सामग्री जो सांकेतिक छिपाव के लिए लेपित और प्रशोधित की गई हो।
 - सैन्य उपकरणों की सर्विस हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा आशोधित मोबाइल रिपेयर शॉप।
 - सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा 'आशोधित' फील्ड जेनरेटर।
 - सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा आशोधित कंटेनर।
 - सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार लेजर सुरक्षा उपकरण (उदाहरण के लिए ऑख और सेंसर सुरक्षा)
 - सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा 'आशोधित' "ईंधन सेल"।

- एमएस 012. निम्नलिखित 'उत्पाद' उपकरण और संघटक:
 क. सैन्य स्टोर सूची द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादों के 'उत्पादन' हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा आशोधित 'उत्पादन' उपकरण और उनके लिए विशेष रूप से तैयार संघटक;
 ख. सैन्य स्टोर सूची द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादों के प्रमाणन, अर्हता अथवा परीक्षण हेतु विशेष रूप से तैयार पर्यावरण संबंधी परीक्षण सुविधाएं और उनके लिए विशेष रूप से तैयार उपकरण।
- एमएस 013. सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय और इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय उपकरण और उनके लिए विशेष रूप से तैयार संघटक जिनमें जैमिंग और काउंटर-जैमिंग उपकरण, फ्रीक्वेंसी एजाइल ट्यूब्स और ट्रांसमीटर ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अथवा उपकरण जो या तो निगरानी तथा सैन्य आसूचना अथवा ऐसी निगरानी का प्रतिकार करने तथा मॉनिटरिंग अंतर्जालीय प्रत्युपाय और स्वचालित संकेत और नियंत्रण प्रणाली के लिए बनाए गए हों।
- एमएस 014. सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार प्रत्युपाय उपकरण और परीक्षण मॉड्यूल संबंधी निदेशित ऊर्जा अस्त्र (डीईडब्ल्यू) प्रणाली तथा उनके लिए विशेष रूप से तैयार संघटक।
- एमएस 015. सैन्य प्रयोग हेतु विशेष रूप से तैयार अथवा सैन्य स्टोर सूची में सूचीबद्ध उपकरणों, सामग्री के विकास, उत्पादन अथवा प्रयोग हेतु सॉफ्टवेयर।
- एमएस 016. इस सैन्य स्टोर सूची में विनिर्दिष्ट मदों के विकास, उत्पाद, परिचालन, प्रतिष्ठान, रखरखाव, मरम्मत, पूरी जाँच और मरम्मत अथवा नवीकरण हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी।

टिप्पणी: ऊपर सूचीबद्ध में से कुछ मदें दोहरे प्रयोग (स्कोमेट मदें) के लिए हो सकती हैं जो उनके विनिर्देशन और विनिर्दिष्ट अन्त प्रयोगों पर निर्भर हैं। अतः क्या मद के लिए डीजीएफटी से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने हेतु निर्यातक स्कोमेट सूची भी देख सकते हैं [निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 का परिशिष्ट 3]।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव: सैन्य स्टोर की ऐसी सूची जिसके लिए रक्षा उत्पादन विभाग से निर्यात हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित है, को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/73/एम14/निर्यात सैल]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

No. 115 (RE – 2013)/2009-2014

Subject: Export of Military Stores.

S.O. 754(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, as amended, the Central Government, with immediate effect, hereby makes the following amendments in Table A of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items.

2. Serial No. (S. No.) 4 of the Table A of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items is substituted as under:

TABLE A**Goods falling in more than one Chapter of ITC (HS) Classification**

S.No.	Chapter	Item Description	Policy	Nature of Restriction
4	Any Chapter	Military Stores as specified in Export Licensing Note of Table A	Free	<p>(i) No Objection Certificate (NOC) shall be obtained from the Department of Defence Production, Ministry of Defence, New Delhi as per the provisions of Standard Operating Procedure (SOP) of Department of Defence Production, as available on the website of Ministry of Defence.</p> <p>(ii) The description of item in the Shipping Bill shall prefix the Serial No. of the item indicated in Export Licensing Note of Table A viz. MS 001 a or MS 001 b or as the case may be.</p> <p>(iii) The Shipping Bill shall indicate the number and date of NOC of Department of Defence Production.</p>

3. The existing Export Licensing Note of Table A is substituted as under:

Export Licensing Note of Table A**List of Military Stores**

The following military stores are freely exportable subject to the conditions mentioned in the “Nature of Restriction” against Serial No. (S. No.) 4:

MS 001. Armoured or protective equipment, constructions and components, as follows:

- Metallic or non-metallic armoured plate, manufactured to comply with a military standard or specification; or suitable for military use.
- Constructions of metallic or non-metallic materials, or combinations thereof, specially designed to provide ballistic protection for military systems, and specially designed components therefor.
- Helmets manufactured according to military standards or specifications, or comparable national standards, and specially designed components therefor (i.e., helmet shell, liner and comfort pads).
- Body armour or protective garments and components therefor namely soft body armour or protective garments, manufactured to military standards or specifications, or to their equivalents, and specially designed components therefor.
- Body armour or protective garments and components therefor namely hard body armour plates providing ballistic protection equal to or greater than level III (NIJ 0101.06, July 2008) or national equivalents.

MS 002. The following smooth-bore weapons, other arms and automatic weapons, projectors and accessories and specially designed components therefor:

- Rifles, guns and combination guns, handguns, machine guns, sub-machine guns and volley guns; howitzers, cannon, mortars, anti-tank weapons, projectile launchers, military flame throwers, rifles, recoilless rifles, smooth-bore weapons and signature reduction devices therefor, detachable cartridge magazines and mountings, weapons sights and weapon sight mounts; specially designed for military weapons /stores.
- Weapons using caseless ammunition.
- Detachables cartridge magazines and mountings specified for military use, sound suppressors or moderators, special gun-mountings, optical weapons sights and flash suppressors, for arms specified by 2.a. and 2.b. above.
- Smoke, gas and pyrotechnic projectors or generators, specially designed or modified for military use.

- MS 003.** Bombs, torpedoes, grenades, smoke canisters, mines (except anti-personnel mines), depth charges, other explosive devices and charges and related equipment and accessories and specially designed components therefor for military use.
- MS 004.** Ammunition and fuze setting devices and specially designed components therefor including:
- a. Metal or plastic fabrications such as primer anvils, bullet cups, cartridge links, rotating bands and military stores metal parts.
 - b. Safing and arming devices, fuzes, sensors and initiation devices.
- MS 005.** The following fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor:
- a. Weapon sights, bombing computers, gun laying equipment and weapon control systems.
 - b. Target acquisition, designation, range-finding, surveillance or tracking systems; detection, data fusion, recognition or identification equipment; and sensor integration equipment.
 - c. Countermeasure equipment including detection equipment specified by para 5a or 5b.
 - d. Field test or alignment equipment, specially designed for items specified by para 5a, 5b or 5c.
- MS 006A.** Vessels of war (surface or underwater), special naval equipment, accessories, components and other surface vessels specially designed or modified for military use.
- MS 006B.** Engines and propulsion systems, specially designed for military use in MS 006A and components therefor.
- MS 006C.** Underwater detection devices, controls and components therefor; Anti-submarine nets and anti-torpedo nets; Hull penetrators and connectors that enable interaction with equipment external to a vessel, and components therefor, specially designed for military use.
- MS 006D.** Silent bearings, components therefor and equipment specially designed for military use.
- MS 007.** Military Ground vehicles and components specially designed or modified for military use including:
- a. Tanks and other military armed vehicles and military vehicles fitted with mountings for arms or equipment for mine laying or the launching of munitions.
 - b. Armoured vehicles.
 - c. Amphibious and deep water fording vehicles.
 - d. Recovery vehicles and vehicles for towing or transporting ammunition or weapon systems and associated load handling equipment.
 - e. Mine-protected vehicles.
- MS 008.** High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment and specially designed components therefor.
- MS 009.** Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor including:
- a. Recorders and image processing equipment;
 - b. Cameras, photographic equipment and film processing equipment;
 - c. Image intensifier equipment;
 - d. Infrared or thermal imaging equipment;
 - e. Imaging radar sensor equipment;
 - f. Countermeasure or counter-countermeasure equipment, for the equipment specified above.
- MS 010.** Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon and specially designed components and accessories therefor.

- MS 011.** Miscellaneous equipment, materials and "libraries" and specially designed components therefor including:
- Construction equipment specially designed for military use.
 - Fittings, coatings and treatments, for signature suppression, specially designed for military use.
 - Field engineer equipment specially designed for use in a combat zone.
 - Equipment and material, coated or treated for signature suppression, specially designed for military use, other than those specified elsewhere in the military stores.
 - Mobile repair shops specially designed or 'modified' to service military equipment.
 - Field generators specially designed or 'modified' for military use.
 - Containers specially designed or 'modified' for military use;
 - Laser protection equipment (e.g., eye and sensor protection) specially designed for military use.
 - "Fuel cells", specially designed or 'modified' for military use.
- MS 012.** The following 'Production' equipment and components:
- Specially designed or modified 'production' equipment for the 'production' of products specified by the Military Stores List, and specially designed components therefor;
 - Specially designed environmental test facilities and specially designed equipment therefor, for the certification, qualification or testing of products specified by the Military Stores List.
- MS 013.** Electronic equipment specially designed for military use such as electronic countermeasure and electronic counter-countermeasure equipment and specially designed components therefor, including jamming and counter-jamming equipment, frequency agile tubes and transmitter block, electronic systems or equipment designed either for surveillance and military intelligence or counteracting such surveillance and monitoring, underwater counter measures and automated command and control systems.
- MS 014.** Directed Energy Weapon (DEW) systems related to counter measure equipment and test modules specially designed for military use and specially designed components therefor.
- MS 015.** Software especially designed or modified for military use or for the development, production or use of equipments, materials listed in this Military Stores list.
- MS 016.** Technology required for the development, production, operation, installation, maintenance, repair, overhaul or refurbishing of items specified in this Military Stores list.

***NOTE:** Some of the items listed above may be of dual use (SCOMET items) depending upon their specifications and specific end uses. Hence, the exporters may also refer to SCOMET LIST [Appendix 3 to Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items] for determining whether the item requires export license from DGFT.*

4. Effect of this notification:

The list of military stores that requires NOC from Department of Defence Production for export has been notified.

[F. No. 01/91/171/73/AM14/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade